

रीवा में नकली नोटों का कारोबार करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, 1.5 लाख के जाली नोट और दो कार जब्त

Ankit Pandey | रीवा रियासत 17 July 2022 1:54 PM

MP Rewa News: नकली नोट का कारोबार करने में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1.5 लाख रूपए के नकली नोट के साथ ही दो कार भी जब्त किया है। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय, अमहिया और सिविल लाइंस पुलिस द्वारा की गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। यह जानकारी एडिशनल एसपी अनिल सोनकर द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। आरोपियों के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में आईपीसी की धारा 498ग और 120 बी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

राजस्थान से रीवा आए थे आरोपी पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपी राजस्थान के हैं, और वह काफी लंबे समय से नकली नोट का कारोबार करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिवस पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नकली नोट का कारोबार करने रीवा आए हुए हैं। सूचना मिलने पर विवि थाना क्षेत्र में तीनों थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देख कर आरोपी कार छोड़ कर भागने लगे। जिसमें से दो आरोपी भागते हुए सड़क में गिर गए। जिस पर पुलिस ने सड़क में गिरे दोनो आरोपियों को धर दबोचा। इसके अलावा भागते हुए एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें से 500 रूपए के 300 नकली नोट मिले हैं।

Source: <https://www.rewariyasat.com/rewa/three-accused-in-business-of-counterfeit-notes-arrested-15-lakh-fake-notes-and-two-cars-seized-92347>